

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.01.2023

सार्वजनिक स्थल पर अश्लील प्रैंक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले अभियुक्त अमित को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा अभियुक्त अमित यादव पुत्र श्री संतराज यादव निवासी मठिया बुजुर्ग थाना जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर, थाना कैण्ट गोरखपुर पर मु0अ0सं0 31/2023 धारा 294 भादवि व 67 आई0टी0एक्ट पंजीकृत कर, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्त अमित यादव पुत्र श्री संतराज यादव निवासी मठिया बुजुर्ग थाना जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर यह कार्य करीब 06 माह से कर रहा है पहले यह प्रैंक वीडियो रामगढ़ताल नौकायन पर बनाता था यहाँ पुलिस के द्वारा मना किया गया तो यह कृत्य वी पार्क मोहदीपुर थाना कैण्ट में शुरू कर दिया था। उक्त कृत्य के सम्बन्ध में लोगो द्वारा शिकायत किया गया कि सार्वजनिक स्थान पर जहाँ महिला/पुरुष अपने परिवार के साथ टहलने जाया करते है। वहाँ पर लोगो का अमित यादव द्वारा अश्लील प्रैंक वीडियो अपने साथियों के साथ मिलकर बनाता था तथा उसे सोशल मीडिया पर डालकर पैसे कमाता था। इसके इस कृत्य से समाज में गलत संदेश फैल रहा था और लोग अपने परिवार के साथ वी0पार्क में जाने में शर्मसार हो रहे थे। ऐसे कार्य करने वालो के विरुद्ध कैण्ट पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया है जिसमें ऐसे लोगो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में अभियुक्त अमित यादव द्वारा अश्लील प्रैंक वीडियो बनाने व सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया जिसके कारण अन्तर्गत धारा 294 भादवि व 67 आई0टी0एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की कृत्य कोई भी करेगा तो उनके विरुद्ध शख्त कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित यादव पुत्र श्री संतराज यादव निवासी मठिया बुजुर्ग थाना जगदीशपुर थाना खोराबार गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 31/2023 धारा 294 भादवि 67 आई0टी0 एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 सुधांशु सिंह चौकी प्रभारी मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 अभिमन्यू तिवारी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 बृजपाल थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

